

प्रपत्र FORM XLI

डी.वी.ओ.सी.डब्ल्यू(आर.ई. एवं सी.एस.) नियमावली, 2002 का नियम 277 देखें

See Rule 277 of DBOCW (RE&CS) Rules, 2002

अंतिम संस्कार लाभ हेतु आवेदन-पत्र Application for Funeral Benefit

1.	आवेदक का नाम एवं पता Name & Address of applicant	
2.	कामगार के साथ आवेदक का रिश्ता Relationship of applicant with the worker	
3.	कामगार का नाम एवं पता Name & Address of the Worker	
4.	पंजीकरण संख्या Registration No.	
5.	पंजीकरण तिथि Date of Registration	
6.	भुगतान की तिथि एवं पहला अभिदान, धनराशि एवं बैंक का नाम, शाखा Date of payment & first subscription, amount and name of bank, branch	
7.	आखिरी अभिदान के भुगतान की तिथि, धनराशि, बैंक का नाम, शाखा Date of payment of last subscription, amount, name of bank, branch	
8.	सदस्यता अवधि Duration of membership	
9.	क्या सदस्यता चालू है ? Whether membership was live?	
10.	कामगार के निधन की तिथि Date of death of worker	
11.	निधन का कारण Reason for death	
12.	क्या आवेदक कामगार का नामिती है ? Whether applicant is the nominee of the worker	
13.	यदि नहीं, तो क्या आवेदक ने आश्रितता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है If not, whether the applicant has submitted dependence certificate	
14.	नामिती का नाम, आयु एवं जन्मतिथि Name, age & date of birth of the nominee.	
15.	यदि नामिती अल्पवयस्क है तो अभिभावक का नाम और बच्चे से उसका संबंध If nominee is/are minor, name of guardian and his/her relationships with the children	
16.	क्या अन्य नामिती के सहमति पत्र प्रस्तुत किए (जहाँ एक से अधिक नामिती हैं) Whether consent letters from other nominees submitted (Where the no. of the nominees is more than one)	
17.	क्या अल्पवयस्क द्वारा अभिभावकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया Whether certificate of guardianship submitted by the minor children	
18.	लाभ की धनराशि जिसके लिए आवेदन किया है Amount of benefits, applied for	

उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

The facts furnished above are true to my knowledge and information.

आवेदक के हस्ताक्षर

Sign. of the applicant _____

आवेदक का नाम

Name of the applicant _____

आवेदक का पता

Address of the applicant _____

स्थान Place.....

दिनांक Date.....